

राजकीय माध्यमिक पाठशाला, दनधर स्थित धुराहण तहसील घुमारवीं
जिला बिलासपुर के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरोक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 4/83 से 3/96

भाग-प्रथम

1. गत अंकेक्षण :- पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

भाग-द्वितीय

2. वर्तमान अंकेक्षण :- राजकीय माध्यमिक पाठशाला दन-धर स्थित धुराहण तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर के अवधि 4/83 से 3/96 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरोक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं श्री जय गोपाल शर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.3.97 से 2.4.97 तक धुराहण, दनधर में किया गया । मास 9/83, 9/84, 6/85, 11/86, 11/87, 12/88, 12/89, 5/90, 6/91, 9/92, 5/93, 4/94, 10/95 को विस्तृत जांच हेतु चुना गया । आगामी अनुच्छेदों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया गया ।

3. अंकेक्षण शुल्क :- राजकीय माध्यमिक पाठशाला, दनधर के अवधि 4/83 से 3/86 के लेखाओं का लेखा शुल्क रु0283/- रु0 आंका गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

	रु0
1. मिश्रित निधि	98.00
2. भवन निधि	55.00
3. स्वास्थ्य निधि	65.00
4. अनुपस्थिति दण्ड निधि	65.00
	283.00

उपरोक्त शुल्क निम्न शीर्ष में जमा करने हेतु अधिपाचना संख्या 65एस0ओ0 आडिट/कुल्लू-97 दिनांक 31.3.97 द्वारा निम्न शीर्ष में जमा करने हेतु सुझाव्यापक महोदय को कहा गया । एवं मूल वालान सत्यापन हेतु परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को भेजे जो सत्यापन के उपरान्त वापिस लौटा दिया जाएगा ।

0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ

60-अन्य सेवाएँ

110-सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क हि0प्र0

4. मिश्रित निधि :- रुक अभिलेख की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि कि विद्यालय द्वारा निम्न व्यय विद्यार्थियों को हेतु कूद प्रतियोगिता में मेस बार्ज हेतु किया गया अदायगी को वास्तविक प्रिंटिड रसीद रिकार्ड में विद्यमान नहीं थी । आगामी अंकेक्षण के समय प्रिंटिड रसीद प्रस्तुत की जाये ।

मा0सं0	अवधि	राशि	व्योरा
244	9/83	312.00	राशि सुझाव्यापक रा0उ0पा0 महोद को हेतुकूद प्रतियोगिता दिनांक 14.9.83 से 16.9.83 के मेस बार्ज हेतु दी गई ।

245	9/83	72.00	राशि प्राचार्य रा0ब0मा0पा0 बरठों को छेत्कूद प्रतिपोगिता दिनांक 20.9.83 से 23.9.83 के मस वार्ज हेतु दो गई ।
261	2/84	200.00	राशि मुख्याध्यापक रा0मा0पा0 भगैड को छेत्कूद प्रतिपोगिता दिनांक 18.9.84 से 20.9.84 के मस वार्ज हेतु दो गई ।
262	10/84	96.00	राशि प्राचार्य रा0उ0पा0 स्टवाड को छेत्कूद प्रतिपोगिता दिनांक 25.9.84 से 28.9.84 के मस वार्ज हेतु दो गई ।
312	11/86	280.00	राशि मुख्याध्यापक रा0मा0पा0 भगैड को छेत्कूद प्रतिपोगिता दिनांक 20.11.86 से 22.11.86 के मस वार्ज हेतु दो गई ।
352	12/88	900.00	राशि मुख्याध्यापक रा0मा0पा0 भगैड को छेत्कूद प्रतिपोगिता दिनांक 9.12.88 से 11.12.88 के मस वार्ज हेतु दो गई ।

॥छा॥ अभिलेख को छानबीन के दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय इस निधि से उक्ति प्रभार नहीं था । व्यय का उचित स्रोत से करके राशि मिश्रित निधि में जमा करवाये तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के समय बताई जाये ।

रा0ब0	अवधि	राशि रु०	व्यौरा
253	3/84	100.00	कार्यालय को 14 छुटियों को कैनिंग करवाने को अदायगी राम प्रकाश, दनधर, धुराहन को की गई ।
257	4/84	12.90	तीन हाजरी रजिस्टर फ्रेण्डज स्टेशनरी मार्ट बिलासपुर से खरीदे गये ।
274	3/85	4.85	एक हाजरी रजिस्टर किरण बुक डिपोट, बिलासपुर से खरीदा गया ।
278	4/85	14.55	तीन हाजरी रजिस्टर फ्रेण्डज स्टेशनरी मार्ट बिलासपुर से खरीदे गये ।
294	1/86	4.50	कार्यालय प्रयोग के लिए एक डिस्पैच रजिस्टर मधु बुक डिपोट, बिलासपुर से खरीदा गया ।
299	4/86	14.55	तीन हाजरी रजिस्टर फ्रेण्डज स्टेशनरी मार्ट, बिलासपुर से खरीदे गये ।
308	11/86	35.90	ग्लूकोज डी जय मेडिकल स्टोर बिलासपुर से खरीदा गया ।
352/1	12/88	32.00	दवाईयां सोनो मेडिकल स्टोर, घुमारगो से खरीदी गई ।
415	7/92	38.80	हाजरी रजिस्टर किरण बुक डिपोट, बिलासपुर से खरीदे गये ।
417	9/92	38.80	-पथोपरि-
430/1	9/92	33.60	ग्लूकोज डी वन्देल मेडिकल स्टोर बिक्रिज से खरीदा गया ।

458 9X98

444/1 9/94 60.00 दवाईयां जय मेडिकल स्टोर बिलासपुर से खरीदी गई

458 9/95 42.50 दवाईयां ज्योती क्लिनिक, पनोह से खरीदी गई ।

॥ ग॥ अभिलेख को छानबीन के दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय लेख कूद के समय छात्रों को अल्पाहार हेतु किया गया था अल्पाहार किन-2 खिलाड़ियों को दिया गया का उल्लेख नहीं किया गया था । खिलाड़ियों को सुची उपलब्ध कराएँ तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के समय बताई जाए ।

क्र.सं.	अवधि	राशि ₹	विवरण
---------	------	-----------	-------

244/3	9/83	35.00	दिनांक 14.9.83 से 16.9.83 के मध्य लेखकूद प्रतियोगिता, समोह में अल्पाहार की अदायगी कृष्ण दयाल शोपकीय समोह को की ।
-------	------	-------	--

245/2	9/93	16.00	दिनांक 20 से 23.9.83 के मध्य लेखकूद प्रतियोगिता बरठो में अल्पाहार की अदायगी राम देव हलवाई बरठो को की गई ।
-------	------	-------	---

261/3	9/84	74.00	दिनांक 18 से 20.9.84 के मध्य लेखकूद प्रतियोगिता, भगेड़ में अल्पाहार की अदायगी गुड्डू-दो-हट्टी भगेड़ को की गई ।
-------	------	-------	--

262	10/84	24.00	दिनांक 25.9.84 से 28.9.84 के मध्य लेखकूद प्रतियोगिता, हट्टाड़ में अल्पाहार की अदायगी लेठी राम हलवाई, हट्टाड़ को की गई ।
-----	-------	-------	---

309	11/86	13.00	दिनांक 20 से 22.11.86 के मध्य लेखकूद प्रतियोगिता भगेड़ में अल्पाहार की अदायगी राजेन्द्र कुमार भगेड़ को की गई ।
-----	-------	-------	--

310	11/86	16.00	-यथोपरि-
-----	-------	-------	----------

311	11/86	35.00	-यथोपरि-
-----	-------	-------	----------

332	11/86	69.00	छात्र स्तर लेखकूद प्रतियोगिता पनोह में अल्पाहार की अदायगी गंगा राम हलवाई पनोह को की गई ।
-----	-------	-------	--

॥ प॥ वाजवर संख्या 336 अवधि 1/88 राशि 490.80 ₹ :-

₹ 490.60 ₹ की अदायगी डोगरा हौजरो बिलासपुर को 12 निकरे खरीदने हेतु की गई । इसका भण्डारण इन्द्राज नहीं किया गया था । भण्डारण प्रविष्टियां करके आगामी लेखा परीक्षा के समय सत्यापित कराई जाएं ।

॥ ड॥ अभिलेख को छानबीन के दौरान यह पाया गया था कि विद्यालय द्वारा 4/83 से 3/85 के दौरान खजाने खरीदी थी जिनका भण्डारण इन्द्राज नहीं किया गया था और न ही अक्षय अवधि के दौरान कहीं भी खजानों के बिक्री की राशि मिश्रित निधि में जमा करवाई गई थी । 4/83 से 3/85 की अवधि में खजानों पर की गई व्यय राशि को ध्यान में रखते हुए समस्त रद्दी खजानों का निपटारा किया जाए तथा प्राप्त राशि की जमा का सत्यापन आगामी लेखा परीक्षा के समय बताया जाये ।

॥च॥ अभिलेख को छानबीन के दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय लेखकूद प्रतिपोगिता के दौरान एफिलियेशन फीस हेतु किया गया था परन्तु रिकार्ड में प्रिंटिड रसीद उपलब्ध नहीं थी । आगामी अंकेक्षण के समय प्रिंटिड रसीद प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ।

वाटसं०	अवधि	राशि ₹	विवरण
254	3/84	20.00	वर्ष 1982-83 के लिए एफिलियेशन फीस कैशियर, डी० एस०एस०एस० बिलासपुर को दी गई दर्शाई गई थी ।
261/4	9/84	20.00	वर्ष 1983-84 के लिए एफिलियेशन फीस मुख्याध्यापक रा०उ०पा० डंगार को दी गई दर्शाई गई थी ।
283	6/85	20.00	वर्ष 1984-85 के लिए एफिलियेशन फीस कैशियर डी०एस० एस०एस० बिलासपुर को दी गई दर्शाई गई थी ।
375/2	12/89	50.00	वर्ष 1988-89 के लिए एफिलियेशन फीस कैशियर डी०एस० एस०एस० बिलासपुर को दी गई दर्शाई गई थी ।

5. भवन निधि :- अभिलेख को छानबीन के दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय भवन निधि कार्यकारिणी को मन्जूरी के बिना किया गया था जो अनियमित था । आगामी अंकेक्षण के समय कार्यकारिणी को मन्जूरी ले कर प्रस्तुत करें ।

वाटसं०	अवधि	राशि ₹	विवरण	विशेष कथन
9111	3/89	228.00	38 फुट बजरी मुंगल सिंह पुराहण से खरीदी गई ।	1. इसका भण्डारण इन्द्राज नहीं किया गया था । 2. इसकी खप्त भी अंकेक्षण में नहीं बताई गई ।
9121	3/89	578.00	7 बैग सीमेन्ट मनोहर लाल एण्ड संज मेहड़वी से खरीदा गया	-पथोपरि
10111	5/89	293.96	सरोपा जगन्नाथ रतन वन्द मेहड़वी से खरीदा गया ।	-पथोपरि-
10121	5/89	296.00	चार बैग सीमेन्ट मनोहर लाल एण्ड संज मेहड़वी से खरीदा गया ।	-पथोपरि-
10131	5/89	260.00	65 फुट रेत हरी राम, बज्जिकेव से खरीदा गया ।	-पथोपरि-

6. विधि :- ॥क॥ छात्रों के हाजरी रजिस्ट्रों को छानबीन के दौरान यह पाया गया कि विद्यालय द्वारा आठवों के छात्रों के नाम काट दिए जाने के फलस्वरूप दोबारा दाखिला करते समय 1/-₹ की दोबारा प्रवेश शुल्क ॥रि-एडमिशन-फीस॥ वसूल नहीं की थी जो अनियमित थी । नौवे उन छात्रों का विवरण दिया जा रहा है जिनसे दोबारा प्रवेश शुल्क प्राप्त नहीं किया गया था । राशि को वसूली दोबारी कर्मचारी से करके सरकार को जमा करें तथा की गई कार्यवाही से इस किताब को सुचित करें ।

दाखिला नम्बर	छात्र का नाम	अवधि दाखिला
659	कर्मोरा देवी	9/91

579	सता देवी	9/91
580	सोता देवी	-"-
635	मीरा देवी	-"-
657	विजय कुमारी	-"-
604	सुनी चन्द	-"-
586	जय किशन	-"-
652	राम लाल	-"-
665	रमेश चन्द	-"-
644	राजेन्द्र कुमार	-"-
883/668	सोहन लाल	-"-
838/586	रमेश चन्द जय किशन	-"-
837/665	रमेश चन्द	-"-
621	नीलम कुमारी	6/88
459	मीना देवी	-"-
466	सोता देवी	-"-
398	जगत पाल	-"-
431	प्रकाश चन्द	-"-
451	अनील कुमार	-"-
633	मोहिन्द्र सिंह	-"-
630	बलदेव दास	-"-
470	राम पाल	-"-
627	अनंत राम	-"-
475	जोगिन्द्र सिंह	-"-
357	चेत राम	-"-
462	सतपाल	-"-
411	जगर नाथ	-"-
481	राजेश कुमार	-"-
671	मन्जुला शर्मा	-"-
673	राजेश कुमार	-"-
656	निरमला देवी	6/90
578	सतपा देवी	-"-
692	उर्मिला देवी	-"-
515	किशोरी सता	-"-
526	माया देवी	-"-
602	मीना देवी	-"-
605	इंकला देवी	-"-
537	प्रमिला देवी	-"-
572	उमा देवी	-"-
888 535	उमा कुमारी	-"-
589	रविन्द्र कुमार	-"-
484	बेसी राम	-"-
411	जगर नाथ	-"-

762	कुलदीप सिंह	6/90
617	मदन लाल	"-
610	राम पात	"-
545	स्य लाल	"-
703	सन्तोष कुमारी	6/92
658	कुंता देवी	"-
633	सन्तोष देवी	"-
634	वीना देवी	"-
661	क्रान्ती देवी	"-
690	अर्चना देवी	"-
456	लता देवी	"-
636	ज्योत्सना कुमारी	"-
830	आशा कुमारी	"-
579	लता देवी	"-
667	लता देवी	"-
598	नीता देवी	"-
654	सोमा देवी	"-
692	उर्मिला देवी	"-
641	भाग सिंह	"-
596	विजय देवी	"-
608	होशियार सिंह	"-
822	जगदीश चन्द	"-
836/586	जय किशन	"-
762	कुलदीप सिंह	"-
583	नन्द किशोर	"-
787	परमिन्दर कुमार	"-
646	संजय कुमार	"-
833/668	सोहन लाल	"-
618	सुभाष चन्द	"-
603	सुख देव	"-
892	सन्तोष कुमारी	"-
693	आशा देवी	6/93
830	आशा देवी	"-
678	आशा देवी	"-
734	विद्यादा देवी	"-
772	विद्यादा देवी	"-
736	कमलेश कुमारी	"-
661	क्रान्ती देवी	"-
879	लता देवी	"-
705	मीरा देवी	"-
729	मीना कुमारी	"-
885	नीता देवी	"-

-: 7 :-

747	कुला देवी	6/93
658	कुला देवी	-"
832/912	राधा देवी	-"
771	राम प्यारी	-"
820	रीतू शर्मा	-"
733	सन्तोष कुमारी	-"
703	सन्तोष कुमारी	-"
633	सन्तोष कुमारी	-"
680	सुनीता देवी	-"
735	सुनीता देवी	-"
741	सुनीता देवी	-"
761	बीना देवी	-"
634	बीना देवी	-"
636	बीना देवी	-"
769	बीना देवी कुमारी	-"
697	अच्छे राम	-"

१. विद्यालय द्वारा भण्डारण वस्तुओं का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं कराया गया था जो कराया जाना अनिवार्य था। आगामी अंश के समय अनुपालना को सुनिश्चित कराई जाए।

२. मिश्रित निधि में अभिलेख की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि विद्यालय द्वारा लेखक पर 60% राशि से अधिक व्यय कर दो धी जबकि नियमाधीन वार्षिक आय को 60% भाग हो लेखक पर व्यय कर सकते थे। अधिक व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी को मन्जूरी से नियमित कराया जाये तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा पर बताई जाये।

वर्ग	वार्षिक आय	व्यय की राशि	जितना व्यय किया जा सकता है	अधिक व्यय की गई राशि
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
83-84	576.00	514.00	346.00	168.00
88-89	1284.00	1461.00	770.00	691.00
89-90	1440.00	1500.00	864.00	636.00
94-95	1416.00	2000.00	850.00	1150.00
95-96	1296.00	1599.00	578.00	1022.00

7. गौण आय वित्त विवरणिका :-

गौण आय वित्तियों का स्थल पर ही निम्न द्वारा कर दिया गया तथा अलग से कोई भी गौण आय वित्त विवरणिका जारी नहीं की गई।

लगातार पृ. 8/-

निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

संयुक्त निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या: फिन॥ एत० ए० सो॥ 15॥ x 1॥ x 1॥ 39/83 दिनांक, शिमला-171002..... 26 JUN 1997

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :- 26 JUN 1997

पंजीकृत १०

सुधपाध्यापक, राजकीय माध्यमिक पाठशाला धनपर स्थित पुराहण तहसील
सुमारजी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेरित
को जाती है कि वह इस अकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई का
सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशोघ्न भेजे ।

2. निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001.

2. निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर जिला बिलासपुर ॥ हिमाचल प्रदेश ॥

3. प्रो जय गोपाल शर्मा, अनुभाग अधिकारी, लेखा परीक्षा द्वारा.....

संयुक्त निदेशक,

स्थानीय लेखा परोक्षा विभाग,

o/c. हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

XXX

के०पी०वार्मा